



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 18—फरवरी 24, 2012 (माघ 29, 1933)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 18—FEBRUARY 24, 2012 (MAGHA 29, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	39	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	161	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	145	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 375
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 3319
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 59
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	39	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	161	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	145	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	375
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3319
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	59
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2012

विषय :— राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति का पुनर्गठन।

सं. 2-4/2000-ईई. 3— इस मंत्रालय के संकल्प सं. एफ-2-4/2000-डेस्क (ईई.), दिनांक 02.01.2001 और दिनांक 26.08.2003 तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.07.2007, 01.10.2009 तथा 05.09.2011 के अनुसरण में जिसके द्वारा राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति के गठन को अधिसूचित किया गया था, के अनुक्रम में भारत सरकार राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति में अगले एक वर्ष के लिए निम्नलिखित नामांकन करती है।

2. शासी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

शासी परिषद्

- (i) भारत के प्रधानमंत्री-अध्यक्ष
- (ii) मानव संसाधन विकास मंत्री-उपाध्यक्ष
- (iii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
- (iv) वित्त मंत्री, भारत सरकार
- (v) उपाध्यक्ष, योजना आयोग
- (vi) महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
- (vii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
- (viii) जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
- (ix) ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
- (x) अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री
- (xi) पंचायती राज राज्य मंत्री
- (xii) युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री
- (xiii) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री
- (xiv) प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के सात वरिष्ठ स्तरीय नेता, (राजनीतिक पार्टियों द्वारा नामित)—नामांकनों को अलग से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(xv) तीन संसद सदस्य (लोक सभा से दो और राज्य सभा से एक) (संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले नामांकन प्रतीक्षित हैं)—नामांकनों को अलग से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(x) प्रारंभिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित छह राज्यों के शिक्षा मंत्री जिन्हें भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार नामित किया जाएगा :—

(क) तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री

(ख) महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री

(ग) त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री

(घ) बिहार के शिक्षा मंत्री

(ङ) उड़ीसा के शिक्षा मंत्री

(च) जम्मू और कश्मीर के शिक्षा मंत्री

(xi) शिक्षकों और शिक्षक संघों के निम्नलिखित छह प्रतिनिधि, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा :—

(क) श्री राम पाल सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ, 41, इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी-ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

(ख) श्री काशीनाथ झा, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा महासंघ, एग्जीक्यूशन रोड, पटना-1, बिहार

(ग) श्री मृण्मय भट्टाचार्य, महासचिव, शिक्षक संघ का महासंघ, नई दिल्ली

(घ) श्रीमती सुनीला माशी, शिक्षक, मिस्ट्रेस जीएचएस स्कूल, सोहागपुर, पीओ होशंगाबाद-461771 (मध्य प्रदेश)

(ङ) सुश्री हर्षा कुमारी, हेडमास्टर, सी.आई.ई., प्रायोगिक स्कूल, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

(च) श्री टी. गंगाधरन, शिक्षक, केरल शास्त्र साहित्य परिषद्, कन्नूर, केरल-670002

(xii) शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि में से निम्नलिखित 5 व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा :—

(क) प्रो. अरविन्द कुमार, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वीएन पूर्व मार्ग, मानखुर्द, मुंबई-400088

- (ख) डॉ. एन. रत्नाश्री, निदेशक, नेहरू तारामंडल, तीन मूर्ति हाऊस, नई दिल्ली
- (ग) डॉ. कार्तिकेय साराभाई, निदेशक, सेंटर फॉर इंवायरनमेंट एजुकेशन, नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, थालटेज टेकरा, अहमदाबाद-380054
- (घ) श्री अरविंद गुप्ता, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, गणेशखिंड, पुणे विश्वविद्यालय कैंपस, पुणे-411007
- (ङ) प्रो. अमिताभ मुखर्जी, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
- (xiii) केन्द्र सरकार द्वारा नामित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन से छह व्यक्ति निम्नलिखित होंगे :--
- (क) सुश्री अंजली नोरोन्हा, एकलव्य, 10, शंकर नगर, भोपाल-462016 (मध्य प्रदेश)
- (ख) सुश्री लैला तैयबजी, अध्यक्ष, दस्तकार, 45-बी, शाहपुर, जट, नई दिल्ली-110049
- (ग) श्री के. के. कृष्ण कुमार, अध्यक्ष, भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, वाईडब्ल्यू होस्टल II बेसमेंट, जी-ब्लॉक, एवेन्यू-21, साकेत, नई दिल्ली-110017
- (घ) डॉ. गुरवीन कौर, सचिव, सेंटर फॉर लर्निंग, प्लॉट नं. 56, साई सागर एन्क्लेव, कांचीगुडा, सिकंदराबाद-500015
- (ङ) डॉ. जीन ड्रेज, विजिटिंग प्रोफेसर, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, झुसी, इलाहाबाद-211019
- (च) सुश्री मीना स्वामीनाथन, उत्तरा देवी सेंटर फॉर जेंडर डेवलपमेंट, सुश्री स्वामीनाथन फाउंडेशन, तीसरा क्रॉस रोड, तारामनी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, चैन्नई-600113 (तमिलनाडु)
- (xiv) भारत सरकार द्वारा महिला संगठनों से निम्नलिखित तीन व्यक्ति नामित किए जाएंगे :--
- (क) सुश्री दीप्ता भोग, निरंतर, सेंटर फॉर जेंडर एंड एजुकेशन, बी-64, दूसरा तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017
- (ख) सुश्री रेनना झाबवाला, सेल्फ एम्प्लॉयड वूमेन एसोसिएशन, सेवा रिसोप्शन, सेंटर, विक्टोरिया गार्डन के सामने, भद्रा, अहमदाबाद-380001
- (ग) डॉ. स्मृति सरूप, निदेशक, सेंटर ऑफ स्पेशल एजुकेशन एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, सर विठ्ठल दास विद्या विहार, जुहु रोड, सांताक्रूज (प.), मुंबई-400009
- (xv) भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच कार्य कर रहे निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को नामित किया जाएगा :--
- (क) प्रो. पदमा वेलास्कर, टायट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज, वीएन पूर्वा मार्ग, देवनार, मुंबई-400088
- (ख) श्रीमती रागिनी प्रेम, बनवासी सेवा आश्रम, पीओ गोविंदपुर, वाया तुरा, सोनभद्र-231221 (उत्तर प्रदेश)
- (ग) प्रो. कंचन इल्लया, राजनीति विज्ञान विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500007
3. पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे :--
- (क) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- (ख) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- (ग) कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
- (घ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- (ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
- (च) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
- (छ) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और महानिदेशक, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन-सदस्य सचिव
4. सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को जिसे वे आवश्यक समझते हैं, विशेष आमंत्रित के रूप में परिषद् की बैठक में अतिरिक्त रूप से आमंत्रित कर सकते हैं।
- कार्यकारी समिति
5. राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :--
- (i) मानव संसाधन विकास मंत्री-अध्यक्ष
- (ii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी)-वरिष्ठ उपाध्यक्ष
- (iii) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग-उपाध्यक्ष
- (iv) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- (v) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- (vi) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
- (vii) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)
- (viii) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- (ix) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
- (x) सचिव, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
- (xi) सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- (xii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- (xiii) कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
- (xiv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
- (xv) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
- (xvi) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
- (xvii) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(xviii) प्रधान सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग

(xix) भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सात गैर-सरकारी लोगों को नामित किया जाएगा जिसमें शिक्षक, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् शामिल होंगे :--

(क) प्रो. कृष्ण कुमार, शिक्षाविद्, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, 33-ए, छात्र मार्ग, पूर्वी दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर, नई दिल्ली-110007

(ख) डॉ. रामानुजन, गणित-विज्ञान संस्थान संकाय, 4 क्रॉस, सीआईटी कैंपस, तारामनी, चैन्नई-600113 (तमिलनाडु)

(ग) सुश्री विमला रामचंद्रन, शिक्षाविद्, एक्ससी-1, साह-विकास, 68, आईपी एक्सटेंशन, दिल्ली-110092

(घ) श्री अनिल बोर्डिया, पूर्व संघ शिक्षा सचिव, सी-113, शिवाजी मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004, राजस्थान

(ङ) सुश्री सीमान्तिनी धुरु, अवेही अबाकस, तीसरा तल, के. के. मार्ग, निगम स्कूल, सात रास्ता, महालक्ष्मी, मुंबई-400011

(च) सुश्री पूनम नटराजन, ऑस्टिस्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि और बहु-विकलांग लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षा, 16-बी, बड़ा बाजार, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

(छ) श्री अरूण कपूर, निदेशक, वसंत वैली स्कूल, सेक्टर सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

(v) भारत सरकार द्वारा यथानामित प्रारंभिक शिक्षा का कार्य देखने वाले चार राज्यों के शिक्षा सचिव :--

(क) आंध्र प्रदेश के शिक्षा सचिव

(ख) झारखंड के शिक्षा सचिव

(ग) छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव

(घ) राजस्थान के शिक्षा सचिव

(vi) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और महानिदेशक, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन - सदस्य सचिव।

मनिंदर कौर द्विवेदी
निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the 12th January 2012

Subject:— Re-constitution of Governing Council and Executive Committee of National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan.

No. 2-4/2000-EE.3—In pursuance of this Ministry's Resolution No. F. 2-4/2000-Desk (EE) dated 02.01.2001 & 26.08.2003 and notification of even nubmer, dated 02.07.2007, 01.10.2009 & 05.09.2011 notifying the composition of Governing Council and Executive Committee of the National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). The Government of India hereby makes the following nominations on the Governing Council and Executive Committee of National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) for the next one year.

2. The Governing Council will comprise of the following :—

GOVERNING COUNCIL

- (i) Prime Minister of India—Chairman
- (ii) Minister of Human Resource Development—Vice-Chairman
- (iii) Minister of State, Human Resource Development
- (iv) Finance Minister, Govt. of India
- (v) Deputy Chairman, Planning Commission
- (vi) Minister of State for Women & Child Development
- (vii) Minister of State for Social Justice & Empowerment
- (viii) Minister of State for Tribal Affairs
- (ix) Minister of State for Rural Development
- (x) Minister of State for Minority Affairs
- (xi) Minister of State for Panchayati Raj
- (xii) Minister of State for Youth Affairs & Sports
- (xiii) Minister of State for DoNER
- (xiv) Seven Senior level political leaders of the main National Parties (as nominated by the Political Parties)—nominations being finalized separately.
- (xv) Three Members of Parliament (Two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha) (nomination by the Ministry of Parliamentary Affairs Awaited)—nomination being finalized separately.
- (x) Six Education Minister of States responsible for Elementary Education nominated by Government of India shall be as follows :—
 - (a) Education Minister of Tamil Nadu
 - (b) Education Minister of Maharashtra
 - (c) Education Minister of Tripura
 - (d) Education Minister of Bihar
 - (e) Education Minister of Orissa
 - (f) Education Minister of Jammu & Kashmir

(xi) Six representatives of Teachers and Teacher Unions nominated by Government of India shall be as follows :—

- (a) Shri Ram Pal Singh, President, All India Primary Teachers' Federation (ATPTE), 41, Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058.
- (b) Shri Kasinath Jha, President, Prathamik Shiksha Mahasangh, Exhibition Road, Patna-1, Bihar.
- (c) Shri Mrinmoy Bhattacharya, General Secretary, World Federation of Teachers' Union, New Delhi.
- (d) Mrs. Sunila Mashri, Teacher, Mistress G.H.S. School Sohagpur P.O. Hoshangabad-461771 (MP).
- (e) Ms. Harsha Kumari, Head Master, CIE, Experimental School, Deptt. of Education, Delhi University, Delhi-110007.
- (f) Shri T. Gangadharan, Teacher, Kerala Sasthra Sahitya Parishad, Kannur, Kerala-670002.

(xii) Five persons from among educationists, scientists etc. nominated by Government of India shall be as follows :—

- (a) Prof. Arvind Kumar, Homi Bhabha Centre for Science and Education (HBCSE), Tata Institute of Fundamental Research, V. N. Purba Marg, Mankhurd, Mumbai-400088.
- (b) Dr. N. Ratnashree, Director, Nehru Planetarium, Teen Murti House, New Delhi.
- (c) Dr. Kartikeya Sarabhai, Director, Centre for Environment Education, Nehru Foundation for Development, Thaltej Tekra, Ahmedabad-380054.
- (d) Shri Arvind Gupta, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics, Ganeshkhind, Pune University Campus, Pune-411007.
- (e) Prof. Amitabha Mukherjee, Centre for Science Education and Communication, University of Delhi, Delhi-110007.

(xiii) Six persons from Non-Governmental Organizations working in the field of Education nominated by Government of India shall be as follows :—

- (a) Ms. Anjali Noronha, Eklavya, 10, Shankar Nagar, Bhopal-462016 (Madhya Pradesh).
- (b) Ms. Laila Tyabji, Chairperson, DASTKAR, 45-B, Shahpur Jat, New Delhi-110049.
- (c) Shri K. K. Krishna Kumar, President, Bharat Gyan Vigyan Samiti (BGVS), Basement of Y.W.A. Hostel-II, G-Block, Avenue-21 Saket, New Delhi-110017.
- (d) Dr. Gurveen Kaur, Secretary, Centre for Learning, Plot No. 56, Sai Sagar Enclave, Kanchiguda, Secundrabad-500015.
- (e) Dr. Jean Dreze, Visiting Prof., Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Jhusi, Allahabad-211019.

- (f) Ms. Mina Swaminathan, Uttara Devi Centre for Gender Development, MS Swaminathan Foundation, 3rd Cross Road, Taramani Institutional Area, Chennai-600113 (Tamil Nadu).
- (xiv) Three persons from women's organizations nominated by Government of India shall be as follows :—
- (a) Ms. Dipta Bhog, Nirantar, Centre for Gender and Education, B-64, 2nd Floor, Sarvodaya Enclave, New Delhi-110017.
- (b) Ms. Renana Jhabvala, Self Employed Women's Association, SEWA Reception Centre, Opp. Victoria Garden, Bhadra, Ahmedabad-380001.
- (c) Dr. Smriti S. Sarup, Director, Centre of Special Education SNDT Women's University, Sir Vithal Das Vidhya Vihar, Juhu Road, Santa Cruz (W), Mumbai-400009.
- (xv) Three persons working among Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the field of Elementary Education nominated by Government of India shall be as follows :—
- (a) Prof. Padma Velaskar, Tata Institute of Social Sciences (TISS), V. N. Poorba Marg, Deonar, Mumbai-400088.
- (b) Smt. Ragini Prem, Banavasi Seva Ashram, P.O. Govindpur, Via Turra, Sonbhadra-231221 (Uttar Pradesh).
- (c) Prof. Kanchan Ilaiah, Department of Political Science, Osmania University, Hyderabad-500007.

3. The following shall be the ex-officio members :—

- (a) Secretary, Department of School Education & Literacy
- (b) Director General, National Literacy Mission (NLM)
- (c) Vice-Chancellor, National University of Educational Planning & Administration (NUEPA)
- (d) Director, National Council of Educational Research & Training (NCERT)
- (e) Chairman, National Council of Teacher Education (NCTE)
- (f) Director General, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)
- (g) Joint Secretary, Elementary Education and Director General, Sarva Shiksha Abhiyan National Mission—Member Secretary.
4. The Chairman of Sarva Shiksha Abhiyan National Mission may additionally, invite to the meeting of the Councils, as special invitee, such person as may be deemed necessary.

EXECUTIVE COMMITTEE

5. The Sarva Shiksha Abhiyan National Mission will have an Executive Committee consisting of the following :—
- (i) Minister, Human Resource Development—Chairman
- (ii) Minister of State (incharge of Elementary Education), Human Resource Development—Sr. Vice-Chairman
- (iii) Secretary, Deptt. of School Education & Literacy—Vice-Chairman
- (iv) Secretary, Ministry of Women & Child Development
- (v) Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment
- (vi) Secretary, Ministry of Tribal Affairs
- (vii) Secretary, Ministry of Rural Development (Department of Drinking Water & Sanitation)
- (viii) Secretary, Ministry of Minority Affairs
- (ix) Secretary, Ministry of Panchayati Raj
- (x) Secretary, Ministry of Youth Affairs & Sports
- (xi) Secretary, Ministry of DoNER
- (xii) Director, National Council of Educational Research & Training (NCERT)
- (xiii) Vice-Chancellor, National University of Educational Planning & Administration (NUEPA)
- (xiv) Chairman, National Council of Teacher Education (NCTE)
- (xv) Director General, National Literacy Mission (NLM)
- (xvi) Director General, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)
- (xvii) Financial Adviser, Ministry of Human Resource Development
- (xviii) Principal Adviser (Education), Planning Commission
- (xix) Seven non-officials comprising of teachers, NGOs representatives, educationists nominated by the Government of India shall be as follows :—
- (a) Prof. Krishna Kumar, Educationist, Central Institute of Education, 33-A, Chhatra Marg, North Delhi University Campus, New Delhi-110007.
- (b) Dr. Ramanujan, Faculty at Institute of Mathematical Sciences Institute, 4th Cross, CIT Campus, Tharamani, Chennai-600113 (Tamil Nadu).
- (c) Ms. Vimala Ramachandran, Educationist, XC-1, Sah-Vikas, 68, I.P. Extension, Delhi-110092.

- (d) Shri Anil Bordia, Former Union Education Secretary, C-113, Shivaji Marg, Tilak Nagar, Jaipur-302004, Rajasthan.
- (e) Ms. Simantini Dhuru, AVEHIABACUS, 3rd Floor, K. K. Marg, Municipal School, Saat Rasta, Mahalaxmi, Mumbai-400011.
- (f) Ms. Poonam Natarajan, Chairperson of the National Trust for Welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, 16-B, Bada Bazar, Old Rajender Nagar, New Delhi-110060.
- (g) Shri Arun Kapoor, Director, Vasant Valley School, Sector-C, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
- (v) Education Secretaries of Four States dealing with Elementary Education as nominated by Government of India :—
- (a) Education Secretary of Andhra Pradesh
- (b) Education Secretary of Jharkhand
- (c) Education Secretary of Chhattisgarh
- (d) Education Secretary of Rajasthan
- (vi) Joint Secretary, Elementary Education & Director General, Sarva Shiksha Abhiyan National Mission—Member Secretary.

MANINDER KAUR DWIVEDI
Dir.